

दरभाषा:-24361852

24366794

24368158

संख्या - 6/1/2014-हिंशियो.(नु)/ 5709

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय)

Government of India

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

Hindi Teaching Scheme (HQ)

द्वितीय पोस्ट
 29/12/14
 4

7वां तल, पर्यावरण भवन,
 सी जी ओ कांप्लेक्स, लोदी रोड,
 नई दिल्ली - 110003
 7th Floor, Paryavaran Bhavan,
 CGO Complex, Lodi Road,
 New Delhi-110003
 दिनांक/Dated :

सेवा में

उप निदेशक

(मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/पूर्वोत्तर)

हिंदी शिक्षण योजना,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

नई दिल्ली/चेन्नै/कोलकाता/मुंबई/गुवाहाटी ।

29 DEC 2014

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी
 आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2015-16 हेतु लक्ष्य निर्धारण ।

महोदय,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में जुलाई, 2015 से हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा अगस्त, 2015 से हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रथम सत्र प्रारंभ होगा । दूसरा सत्र जनवरी, 2016 से हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा फरवरी, 2016 से हिंदी टंकण एवं आशुलिपि का प्रारंभ होगा । वित्तीय वर्ष में इन पाठ्यक्रमों के दो सत्र होते हैं । केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों में गहन हिंदी प्रशिक्षणरत सहायक निदेशकों (भाषा) की गहन हिंदी कक्षाओं में भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कक्षाओं में दाखिला नहीं हो पा रहा है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि उप संस्थान-कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद और बेंगलूर के 02-02 सहायक निदेशक(भाषा) तथा चेन्नै का एक सहायक निदेशक (भाषा) (जो कि वर्तमान में पुदुचेरी में तैनात है), जनवरी, 2015 से प्रारंभ होने वाले सत्र से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की कक्षाओं का संचालन करेंगे । इन उप संस्थानों में कार्यरत जो-जो सहायक निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत जनवरी, 2015 से प्रारंभ होने वाले सत्र से कक्षाओं का गठन करेंगे - उनके बारे में अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं। कक्षाओं का गठन तथा संचालन सहायक निदेशकों (भाषा), सहायक निदेशकों (टंकण/आशुलिपि), हिंदी प्राध्यापकों और अंशकालिक प्रशिक्षकों/अनुदेशकों द्वारा किया जाएगा ।

....2/-

गिरा
 ISSUED
 29/12/14

